

धारा 143(1) के तहत सूचना



आयकर केन्द्र
CENTRALIZED PROCESSING CENTER
INCOME TAX DEPARTMENT

नाम : मोदी हाऊसिंग प्राइवेट लिमिटेड
पता : 5-4-187/3 एण्ड 4.3 र्द फ्लोर सोहम नैशन, एम.जी.रोड रानीगंज, सिविकराबाद-तेलंगना 500003 इंडिया
फ़ोन: 91-9121282860

स्वायी खाता संख्या : AADCM5906D | निर्धारण वर्ष : 2021-22 | पावती सं. : 156269790100222 | पत्र संदर्भ संख्या : CPC/2122/A6/290555290

निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आपके केस में मांग निर्धारित की गई है

माँग की राशि: ₹ 69,97,780

माँग संदर्भ सं.:

202202137133975171C

ITR फॉर्म का प्रकार
ITR6 मूल

फाइलिंग की दिनांक
10/02/2022

सूचना आदेश की दिनांक
13/11/2022

नियत दिनांक
31/10/2021

विरतारित नियत दिनांक
15/03/2022

स्थिति
Private company

आवासीय स्थिति
Resident

आयकर विवरणी का विवरण

क्र.सं.	विवरण	रिपोर्टिंग सीर	राशि (₹ में) करदाता द्वारा प्रदान किया गया	धारा 143(1) की गणना के अनुसार
01	कराधान विकल्प	115BAA का विकल्प चुना	Yes	No
02	आय का विवरण	कुल आय	6,79,23,400	6,79,23,400
03	कर का विवरण	राहत के बाद कर दायित्व	1,70,94,962	2,26,75,547
04	ब्याज और देय शुल्क	कुल ब्याज और शुल्क (234A, 234B, 234C और 234F)	27,08,964	45,38,886
05	पूर्व संदत्त कर	कुल भुगतान किया गया कर (अग्रिम कर, टी डी एस , टी सी एस , स्व-मूल्यांकन कर)	2,02,16,655	2,02,16,655
06	देय कर	कुल देय राशि	0	69,97,780

कर का डे - भुगतान करने
के लिए यहाँ क्लिक करें

[Click here for English version](#)

एन साईराज
सहायक आयकर निदेशक, सी.पी.सी.
बैंगलुरु

धारा 143(1) के तहत सूचना



आयकर केन्द्र
CENTRALIZED PROCESSING CENTER
INCOME TAX DEPARTMENT

नाम : मोदी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड

स्थापकी खाता संख्या : AADCM5906D

निर्धारण वर्ष

: 2021-22

पावती सं.

: 156269790100222

पत्र संदर्भ संख्या

: CPG/2122/A6/290555290

क्र.सं.	विवरण	रिपोर्टिंग शीर्ष	राशि (₹ में)	
			करदाता द्वारा प्रदान किया गया	धारा 143(1) की गणना के अनुसार
			0	0
01	आय के शीर्ष	घर संपत्ति शीर्ष के तहत आय	6,72,58,063	6,72,58,063
02		कारोबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाम शीर्ष के तहत आय	0	0
03		पूँजी अभिलाम शीर्ष के तहत आय	6,65,336	6,65,336
04		अन्य स्रोतों के तहत आय	0	0
05		अंतरा शीर्ष समायोजन	6,79,23,399	6,79,23,399
06		कुल (अंतरा शीर्ष समायोजन के बाद) $[6=(1+2+3+4+5)]$	0	0
07		6 के विरुद्ध वर्तमान वर्ष की हानि का समायोजन	6,79,23,399	6,79,23,399
08		वर्तमान वर्ष की हानि के बाद शेष $[8=(6-7)]$	0	0
09		8 के विरुद्ध आगे लाई गई हानि का समायोजन	6,79,23,399	6,79,23,399
10		कुल सकल आय $[10=(8-9)]$	0	0
11	विशेष आय	(i) धारा 115BBE के तहत विशेष दर पर कर प्रभार्य आय	0	0
		(ii) धारा 115BBE के अलावा विशेष दर पर कर प्रभार्य आय	0	0
12	अध्याय VI-A के तहत कटौती	a) अध्याय VI-A के भाग-B	0	0
		(b) अध्याय VI-A का भाग-C	0	0
		(c) कुल $[(12a+12b)]$	0	0
13		धारा 10AA के तहत कटौती	6,79,23,400	6,79,23,400
14		कुल आय $[14=(10-12(c)-13)]$	0	0
15		विशेष दरों पर कर प्रभार्य आय	6,79,23,400	6,79,23,400
16		सामान्य दरों पर कर प्रभार्य आय (14-15)	0	0
17		कुल कृषि आय	0	0
18		आगे ले जाई गयी वर्तमान वर्ष की हानि	0	7,82,30,959
19		धारा 115JB के तहत मान्य कुल आय	0	1,17,34,644
20	धारा 115JB के तहत कर का विवरण	धारा 115JB के तहत मान्य कुल आय पर देय कर	0	8,21,425
21		उम्र 20 पर अधिभार	0	5,02,243
22		क्र. सं. (20+21) पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ 4%	0	1,30,58,312
23		धारा 115JB के तहत कुल देय कर $[23=(20+21+22)]$	1,49,43,148	2,03,77,020
24	कुल आय पर देय कर	सामान्य दरों पर क्र. सं. 16 पर कर	0	0
25		(i) धारा 115BBE पर कर	0	0
		(ii) धारा 115BBE के अलावा विशेष आय पर कर	1,49,43,148	2,03,77,020
26		कुल आय पर देय कर $[26=(24+25(i)+25(ii))]$	0	0
27		उम्र 26 पर अधिभार	0	0
		(i) धारा 115BBE के तहत प्रभार्य आय पर कर का 25%	14,94,315	14,26,391
		(ii) $[(\text{क्र. सं. 26}) - (\text{धारा 115BBE के तहत मान्य आय पर कर})]$ पर (लागू होगा यदि 14.1 करोड़ से ज्यादा होगा)	14,94,315	14,26,391
		(iii) कुल (i + ii)	6,57,499	8,72,136
28		स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ 4% की दर से $(26+27(iii))$ पर	1,70,94,962	2,26,75,547
29		सकल कर देयता $[29=(26+27(iii)+28)]$	1,70,94,962	2,26,75,547
30		सकल देय कर (23 या 29 में से जो भी अधिक हो)		

धारा 143(1) के तहत सूचना



आयकर केन्द्र
CENTRALIZED PROCESSING CENTER
INCOME TAX DEPARTMENT

नाम : मोदी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड

स्थायी खाता संख्या : AADCM5906D | निर्धारण वर्ष : 2021-22 | पावती सं. : 156269790100222

पत्र संदर्भ संख्या : CPC/2122/A6/290555290

क्र.सं.	विवरण	रिपोर्टिंग शीर्ष	राशि (₹ में)	
			करदाता द्वारा प्रदान किया गया	धारा 143(1) की गणना के अनुसार
31		पूर्व के वर्षों में भुगतान किए गए कर का धारा 115JAA के तहत क्रेडिट (यदि 29, 23 से अधिक है)	0	0
32		धारा 115JAA के तहत क्रेडिट के बाद देय कर [(30-31)]	1,70,94,962	2,26,75,547
33	कर राहत	धारा 90/90A	0	0
34		धारा 91	0	0
35		कुल [35=(33+34)]	0	0
36	आयकर देय	कुल कर देय [36=(32-35)]	1,70,94,962	2,26,75,547
37	ब्याज और देय शुल्क	(a) धारा 234A के तहत ब्याज	3,37,566	8,98,352
		(b) धारा 234B के तहत ब्याज	15,19,047	26,06,364
		(c) धारा 234C के तहत ब्याज	8,52,351	11,34,170
		(d) धारा 234F के तहत शुल्क	0	0
		(e) कुल ब्याज और देय शुल्क [37e=(37(a)+37(b)+37(c)+37(d))]	27,08,964	45,38,886
38		कुल दायित्व [38=(36+37e)]	1,98,03,926	2,72,14,433
39	पूर्व संदत्त कर	(a) अग्रिम कर	0	0
		(b) टी डी एस	2,16,655	2,16,655
		(c) टी सी एस	0	0
		(d) स्वतः निर्धारित कर	2,00,00,000	2,00,00,000
		(e) भुगतान किया गया कुल कर [39e=(39(a)+39(b)+39(c)+39(d))]	2,02,16,655	2,02,16,655
40	देय कर	देय शेष राशि [40=(38-39e)]	0	69,97,778
41	कुल देय राशि			69,97,780

कर का ₹ - भुगतान करने के लिए धारा क्लिक करें

धारा 143(1) के तहत सूचना



आयकर केन्द्र
CENTRALIZED PROCESSING CENTER
INCOME TAX DEPARTMENT

नाम : मोदी हज्जतींग प्राईवेट लिमिटेड

स्थायी खाता संख्या : AADCM5906D

निर्धारण वर्ष

: 2021-22

। पावती सं.

: 156269790100222

। पत्र संदर्भ संख्या

: CPC/2122/A6/290555290

मांग नोट:

1. इस सूचना को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 156 के तहत मांग की सूचना के रूप में माना जाए। तदनुसार, आपसे इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पूरी मांग का भुगतान करने का अनुरोध किया जाता है।
2. आपको इस सूचना के प्रज्ञापन के रूप में कर मांग का भुगतान करने के लिए अनुरोध किया जाता है। भुगतान के लिए लिंक इस प्रज्ञापन में प्रदान किया है, जिसका उपयोग किया जा सकता है। यदि आप किसी प्राधिकृत बैंक शाखा के माध्यम से वहीं जाकर भुगतान करना चाहते हैं, तो पूर्व-भरे चालान को प्रयोग के लिए संलग्न किया गया है।
3. यदि इस सूचना के किसी भी भाग में सुधार करने की आवश्यकता है, तो आप आयकर अधिनियम 1961 की धारा 154 के तहत सुधार हेतु अनुरोध कर सकते हैं।
4. धारा 220(2) के तहत ब्याज की गणना भुगतान/मांग के समायोजन की तिथि तक करी जायेगी।
5. बकया मांग के संबंध में कोई भी भुगतान केवल लघु शीर्ष कोड '400' का उपयोग करके किया जाना चाहिए।

To file a Rectification Request

1

www.incometax.gov.in

AAADK4117J

password

Login

Log on to www.incometax.gov.in with your PAN Number and Password.

2

www.incometax.gov.in

Services

Rectification

Click on 'Rectification' under 'Services' tab.

धारा 143(1) के तहत सूचना



आयकर केंद्र
CENTRALIZED PROCESSING CENTER
INCOME TAX DEPARTMENT

नाम : मोदी हाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड

स्थायी खाता संख्या : AADCM5906D | निर्धारण वर्ष : 2021-22 | पावती सं. : 156269790100222

पत्र संदर्भ संख्या : CPC/21/22/A6/290555290

अनुबंध - MAT - धारा 115JB के तहत न्यूनतम वैकल्पित देय कर की गणना

क्र.सं.	विवरण	राशि (₹ में) करदाता द्वारा प्रदान किया गया	धारा 143(1) की गणना के अनुसार
1	क्या लाभ और हानि खाता कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग II के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है	2	2
2	यदि 1 नहीं है, तो क्या इस तरह की कंपनी पर लागू अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लाभ और हानि खाता तैयार किया जाता है	2	2
3	क्या उभर मद 1 में उल्लिखित लाभ और हानि खाते के लिए, वही लेखांकन नीतियां, लेखांकन मानक और अवक्षयण की गणना करने के लिए एक ही विधि और दरें, जो अवक्षयण की गणना के लिए अपनाई गई हैं, जो उसके वार्षिक सामान्य निकाय बैलक में कंपनी के समक्ष रखे गए खातों को तैयार करने के लिए अपनाई गई?	2	2
4	कर के बाद लाभ, जैसा लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है (भाग A-P&L का मद 56 दर्ज करें)/(भाग A-P&L Ind AS का मद 56 दर्ज करें)	0	7,82,30,959
5	वृद्धि (यदि लाभ और हानि खाते में विकलित की गयी)		
	(a) भुगतान किया हुआ या देय कर या इसकी व्यवस्था जिसमें आस्थगित कर की राशि और उसकी व्यवस्था शामिल है	0	0
	(b) आरक्षित निधि (धारा 33AC के तहत आरक्षित निधि को छोड़कर)	0	0
	(c) अनिवार्य दायित्वों के लिए प्रावधान	0	0
	(d) सहायक कंपनियों के नुकसान के लिए प्रावधान	0	0
	(e) प्रदत्त या प्रस्तावित लाभांश	0	0
	(f) धारा 10, 11 या 12 के तहत छूट प्राप्त आय से संबंधित व्यय (छूट प्राप्त आय में धारा 10(38) के तहत छूट प्राप्त आय शामिल नहीं है)	0	0
	(g) AOP/BCI की आय में शेयर से संबंधित व्यय जिस पर धारा 86 के अनुसार कोई आयकर देय नहीं है	0	0
	(h) धारा 115JB की व्याख्या 1 की खंड (fb) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी के मामले में व्यय	0	0
	(i) धारा 115JB की व्याख्या 1 के खंड (fc) में निर्दिष्ट कुछ पूंजी सम्पत्तियों या इकाईयों के अंतरण पर काल्पनिक हानि	0	0
	(j) धारा 115BBF के तहत कर के लिए प्रभार्य पेटेंट के संबंध में सैंगल्टी के सत्र में आय हेतु पुनर्भुगतान व्यय	0	0
	(k) आस्तियों के पुनः मूल्यांकन के कारण होने वाला अवक्षयण	0	0
	(l) धारा 115JB की व्याख्या 1 के खंड (k) में दिए गए इकाईयों के अंतरण से लाभ	0	0
	(m) अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों सहित तथा किसी आस्ति के मूल्य में कमी के प्रावधान समेत)	0	0
	(n) कुल योग (5a+5b+5c+5d+5e+5f+5g+5h+5i+5j+5k+5l+5m)	0	0
6	कटौतियां		
	(a) आरक्षित निधि या प्रावधान से निकाली गई राशि यदि लाभ और हानि खाते में क्रेडिट की गयी है	0	0

धारा 143(1) के तहत सूचना



आयकर केन्द्र
CENTRALIZED PROCESSING CENTER
INCOME TAX DEPARTMENT

नाम : मोदी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड

सहायी खाता संख्या : AADCM5906D

निर्धारण वर्ष : 2021-22

पावती सं. : 156269790100222

पत्र संदर्भ संख्या : CPC/2122/A6/290555290

अनुबंध - MAT - धारा 115JB के तहत न्यूनतम वैकल्पित देय कर की गणना

क्र.सं.	विवरण	राशि (₹ में) करदाता द्वारा प्रदान किया गया	धारा 143(1) की गणना के अनुसार
(b)	धारा 10, 11 या 12 के तहत छूट प्राप्त आय (छूट आय में धारा 10(38) के तहत आय छूट शामिल नहीं है)	0	0
(c)	पुनर्भुगतान आरक्षित निधि से निकाली गई राशि तथा लाभ और हानि खाते में क्रेडिट की गई राशि जिस सीमा तक यह परिआस्ति के पुनर्मूल्यांकन के कारण होने वाले अवकाश की राशि से अधिक नहीं होती है	0	0
(d)	AOP/BOI की आय में हिस्सा जिस पर धारा 86 के तहत कोई आयकर भुगतान नहीं किया जाना है, जो लाभ और हानि खाते में क्रेडिट किया गया है	0	0
(e)	विदेशी कंपनी के मामले में आय जैसा की धारा 115JB की व्याख्या 1 के खंड (iia) में दिया गया है	0	0
(f)	धारा 115JB की व्याख्या 1 के खंड (iie) में निर्दिष्ट कुछ पूंजी आस्तियों या इकाइयों के अंतरण पर काल्पनिक लाभ	0	0
(g)	धारा 115JB की व्याख्या 1 के खंड (iif) में दी गयी इकाइयों के अंतरण से हानि	0	0
(h)	धारा 115JB की व्याख्या 1 के खंड (iig) में दत्तार गए रॉयल्टी से आय	0	0
(i)	अग्रणीत हानि या शेष अवकाश दोनों में से जो भी कम हो या दोनों, जो भी लागू हो	0	0
(j)	रुग्ण औद्योगिक कंपनी का लाभ जब तक निवल मूल्य संश्रित हानि के बराबर या उससे अधिक न हो	0	0
(k)	अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों और P&L खाते में क्रेडिट आस्थगित कर की राशि सहित)	0	0
(l)	कुल कटौती (6a+6b+6c+6d+6e+6f+6g+6h+6i+6j+6k)	0	0
7	धारा 115JB के तहत बुक लाभ (4+ 5n - 6l)	0	7,82,30,959
8	यदि कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखाकरण मानकों (IndAS) के अनुपालन में बनाए गए हैं जो कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट हैं। यदि हाँ, तो नीचे दिए गए विवरण दें:-	N	N
A	धारा 115JB की उपधारा (2A) से (2C) के अंतर्गत बुक लाभ में वृद्धि		
(a)	लाभ हानि विवरण में "जो मद लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किए जायेंगे" शीर्ष के तहत अन्य व्यापक आय में छाली गयी राशियाँ	0	0
(b)	किसी ड्रिमर्जर में शेयरधारकों को गैर नकदी आस्तियों के वितरण पर लाभ और हानि विवरण के लिए विकलित की गई राशियाँ	0	0
(c)	संक्रमण राशि का एक पांचवा भाग जिसे धारा 115JB (2C) में संदर्भित किया गया है (यदि लागू हो)	0	0
(d)	अन्य (अवशिष्ट समायोजन सहित)	0	0
(e)	कुल योग (8a + 8b + 8c + 8d)	0	0
B	धारा 115JB की उपधारा (2A) से (2C) के तहत बुक लाभ से कटौती		

धारा 143(1) के तहत सूचना



आयकर केन्द्र
CENTRALIZED PROCESSING CENTER
INCOME TAX DEPARTMENT

नाम : मोदी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड

स्थायी खाता संख्या : AADCM5906D

निर्धारण वर्ष

: 2021-22

। पावती सं.

: 156269790100222

। पत्र संदर्भ संख्या

: CPC/2122/A6/290555290

अनुबंध - MAT - धारा 115JB के तहत न्यूनतम वैकल्पित देय कर की गणना

क.सं.	विवरण	राशि (₹ में) करदाला द्वारा प्रदान किया गया	धारा 143(1) की गणना के अनुसार
	लाम और हानि विवरण में "जो मद लाम और हानि में पुनः (f) वर्गीकृत नहीं किए जायेंगे" शीर्ष के तहत अन्य व्यापक आय से निकाली गयी राशियाँ	0	0
	किसी डीमर्जर में शेयरधारकों को गैर नकदी आस्तियों के (g) वितरण पर लाम और हानि विवरण में क्रेडिट की गई राशियाँ	0	0
	संक्रमण राशि का एक पांचवा भाग जिसे धारा 115JB (2C) (h) में संदर्भित किया गया है (यदि लागू हो)	0	0
	(i) अन्य (अवशिष्ट समायोजन सहित)	0	0
	(j) कुल कटौतियाँ (8f + 8g + 8h + 8i)	0	0
9	धारा 115JB के तहत मानी गयी कुल आय (7 + 8e - 8j)	0	7,82,30,959
10	धारा 115JB के तहत देय कर	0	1,17,34,644

नाम : मोदी हाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड
पता :

स्थायी खाता संख्या : AADCM5906D | निर्धारण वर्ष : 2021-22 | पाबती सं. : 156269790100222 | पत्र संदर्भ संख्या : CPC/2122/A6/290555290

एन.एस.डी.एल. ई-गव द्वारा प्रबंधित विभाग की कर सूचना नेटवर्क वेबसाइट पर ई-भुगतान करने के लिए ई-भुगतान के लिए आपरयक-नांग के अनुसार सभी अनिवार्य विवरण (जैसे: पैन, निर्धारण वर्ष, राशि, आदि) को पहले ही भर दिया जाएगा।

चालान सं./आई.टी.एन.एस. 280

कर माई - भुगतान करने
के लिए यहाँ क्लिक करें

लागू कर (किसी एक पर निशान लगाएँ)*

☒ कंपनियों पर आयकर (0020) (निगम कर)

☐ आयकर (0021) (कंपनियों के अलावा)

भुगतान का प्रकार (किसी एक पर निशान लगाएँ)

डी.आर.एन. 2022202137133975171C

☐ अग्रिम कर (100)

☐ अधिकर (102)

☐ स्व निर्धारण कर (300)

☐ घरेलू कंपनियों के वितरित लाभों पर कर (106)

☒ नियमित निर्धारण पर कर (400)

☐ यूनिटधारकों को वितरित आय पर कर (107)

भुगतान का विवरण

राशि (केवल रु. में)

प्राप्तकर्ता बैंक के उपयोग के लिए

आयकर

69,97,780

खाते/चेक से विकलन को इस पर क्रेडिट किया गया

अधिभार

शिक्षा उपकर

डीडी एमएम वाईवाईवाईवाई

व्याज

बैंक के मोहर के लिए स्थान

शास्ति

अन्य

कुल

69,97,780

करोड़	लाख	हजार	सैकड़ा	दहाई	इकाई
0	69	97	7	8	0

नकद में भुगतान किया गया / खाते से
विकलित किया / चेक सं.

दिनांक

यहाँ से आहरित

(बैंक और शाखा का नाम)

दिनांक:

भुगतान करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

करदाता का प्रतिपण
(करदाता द्वारा भरा जाना है)

डी.आर.एन. 2022202137133975171C

बैंक के मोहर के लिए स्थान

पैन

AADCM5906D

इससे प्राप्त किया गया

मोदी हाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड
(गम)

नकद / खाता से विकलित/ चेक सं.

रु. की 69,97,780

रु. (शब्दों में)

Sixty Nine Lakh Ninety Seven Thousand Seven Hundred and Eighty

यहाँ से आहरित

(बैंक और शाखा का नाम)

आयकर के वास्ते

कंपनियों / कंपनियों के अलावा कर
(जो भी लागू न हो उसे काट दें)

भुगतान का प्रकार नियमित निर्धारण पर कर (400) (भुगतान करने वाले व्यक्ति द्वारा भरा जाना है)

निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए

Intimation u/s 143(1)



आयकर केन्द्र
CENTRALIZED PROCESSING CENTER
INCOME TAX DEPARTMENT

Name : MODI HOUSING PRIVATE LIMITED
Address : 5-4-187/3 AND 4,3RD FLOOR SOHAM MANSION, M.G.ROAD RANIGUNJ,
SECUNDERABAD Telangana 500003 INDIA
Ph : 91-9121282860

नाम: मोदी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
पता: 5-4-187/3 एण्ड 4,3वें फ्लोर सोहम मॅन्शन, एम.जी.रोड रानीगंज,
सिकन्दराबाद तेलंगना 500003 इंडिया
फ़ोन: 91-9121282860

PAN : AACDM5906D | AY : 2021-22 | Ack. No. : 156269790100222 | DIN : CPC/2122/A6/290555290

You have a Demand for A.Y. 2021-22

Amount of Demand : ₹ 69,97,780

Demand Reference No : 2022202137133975171C

ITR Form Type
ITR6 Original

Date of Filing
10/02/2022

Intimation Order Date
13/11/2022

Due Date
31/10/2021

Extended Due Date
15/03/2022

Status
Private company

Residential status
Resident

RETURN DETAILS

Sl.No.	Particulars	Reporting Heads	Amount in ₹	
			As provided by Taxpayer	As Computed u/s 143(1)
01	Taxation option	Opted for 115BAA	Yes	No
02	Income Details	Total Income	6,79,23,400	6,79,23,400
03	Tax Details	Tax Liability after relief	1,70,94,962	2,26,75,547
04	Interest and Fee Payable	Total Interest And Fee (234A, 234B, 234C & 234F)	27,00,964	45,38,886
05	Pre-paid Taxes	Total Taxes Paid (Advance Tax, TDS, TCS, Self Assessment Tax)	2,02,16,655	2,02,16,655
06	Tax Payable	Net Amount Payable	0	69,97,780

[Click Here to E-PAY TAX](#)

Signature Not Verified
Digitally signed by N SAYIRAJ
Date: 2022.11.13 15:23:57
Reason: I am the signer.

N SAYIRAJ

Asst. Director of Income Tax, CPC
Bengaluru

Intimation u/s 143(1)



आयकर केन्द्र
CENTRALIZED PROCESSING CENTER
INCOME TAX DEPARTMENT

Name : MODI HOUSING PRIVATE LIMITED

PAN : AADCM5906D

AY : 2021-22

Ack. No. : 156269790100222

DIN : CPC/2122/A6/290555290

Sl.No.	Particulars	Reporting Heads	Amount in ₹	
			As provided by Taxpayer	As Computed u/s 143(1)
01	HEADS OF INCOME	Income under the head house property	0	0
02		Income under the head profit and gains from business or profession	6,72,58,063	6,72,58,063
03		Income under the head capital gains	0	0
04		Income under the head other sources	6,65,336	6,65,336
05		Intra head adjustments	0	0
06		Total (after intra head adjustments) [6=(1+2+3+4-5)]	6,79,23,399	6,79,23,399
07		Losses of current year set off against 6	0	0
08		Balance after set off current year losses [8=(6-7)]	6,79,23,399	6,79,23,399
09		Brought forward losses set off against 8	0	0
10		Gross total income [10=(8-9)]	6,79,23,399	6,79,23,399
11	SPECIAL INCOME	(i) Income chargeable to tax at special rate u/s 115BBE	0	0
		(ii) Income chargeable to tax at special rate other than section 115BBE	0	0
12	DEDUCTIONS UNDER CHAPTER VIA	(a) Part-B of Chapter VI-A	0	0
		(b) Part-C of Chapter VI-A	0	0
		(c) Total [(12a + 12b)]	0	0
13		Deduction u/s 10AA	0	0
14		Total income [14=(10-12(c)-13)]	6,79,23,400	6,79,23,400
15		Income chargeable to tax at special rates	0	0
16		Income chargeable to tax at normal rates (14-15)	6,79,23,400	6,79,23,400
17		Net agricultural income	0	0
18		Loss of current year to be carried forward	0	0
19		Deemed total income u/s 115JB	0	7,82,30,959
20	TAX DETAILS U/S 115JB	Tax payable on deemed total income u/s 115JB	0	1,17,34,644
21		Surcharge on above 20	0	8,21,425
22		Health and Education Cess @ 4%, on (20+21) above	0	5,02,243
23		TOTAL TAX PAYABLE u/s 115JB [23=(20+21+22)]	0	1,30,58,312
24	TAX PAYABLE ON TOTAL INCOME	Tax at normal rates on 16 of above	1,49,43,148	2,03,77,020
25		(i) Tax on section 115BBE	0	0
		(ii) Tax on special income other than section 115BBE	0	0
26		Tax Payable on Total Income [26=(24+25(i)+25(ii))]	1,49,43,148	2,03,77,020
27		Surcharge on above 26	0	0
		(i) 25% of Tax on deemed income chargeable u/s 115BBE	0	0
		(ii) On [(sl no. 26) - (tax on deemed income chargeable u/s 115BBE)] (applicable if 14 exceeds 1 crore)	14,94,315	14,26,391
		(iii) Total (i + ii)	14,94,315	14,26,391
28		Health and education cess @4% on (26+27(iii))	6,57,499	8,72,136
29		Gross Tax Liability [29=(26+27(iii)+28)]	1,70,94,962	2,26,75,547
30		Gross tax payable (higher of 23 or 29)	1,70,94,962	2,26,75,547
31		Credit u/s 115JAA of tax paid in earlier years (if 29 is more than 23)	0	0

Intimation u/s 143(1)



आयकर केन्द्र
CENTRALIZED PROCESSING CENTER
INCOME TAX DEPARTMENT

Name : MODI HOUSING PRIVATE LIMITED

PAN : AADCM5906D

AY : 2021-22

Ack. No. : 156269790100222

DIN : CPC/2122/A6/290555290

Sl.No.	Particulars	Reporting Heads	Amount in ₹	
			As provided by Taxpayer	As Computed u/s 143(1)
32		Tax payable after credit u/s 115JAA [(30-31)]	1,70,94,962	2,26,75,547
33	TAX RELIEF	u/s 90/90A	0	0
34		u/s 91	0	0
35		Total [35=(33+34)]	0	0
36	INCOME TAX LIABILITY	Net tax liability [36=(32-35)]	1,70,94,962	2,26,75,547
37	INTEREST AND FEE PAYABLE	(a) Interest u/s 234A	3,37,566	8,98,352
		(b) Interest u/s 234B	15,19,047	25,06,364
		(c) Interest u/s 234C	8,52,351	11,34,170
		(d) Fee u/s 234F	0	0
		(e) Total Interest and fee payable [37e=(37(a)+37(b)+37(c)+37(d))]	27,08,964	45,38,886
38		Aggregate liability [38=(36+37e)]	1,98,03,926	2,72,14,433
39	PRE-PAID TAXES	(a) Advance tax	0	0
		(b) TDS	2,16,655	2,16,655
		(c) TCS	0	0
		(d) Self assessment tax	2,00,00,000	2,00,00,000
		(e) Total Taxes Paid [39e=(39(a)+39(b)+39(c)+39(d))]	2,02,16,655	2,02,16,655
40	TAX PAYABLE	Balance payable [40=(38-39e)]	0	69,97,778
41	Net Amount Payable			69,97,780

[Click Here to E-PAY TAX](#)

Intimation u/s 143(1)



आयकर केन्द्र
CENTRALIZED PROCESSING CENTER
INCOME TAX DEPARTMENT

Name : MODI HOUSING PRIVATE LIMITED

PAN : AADCM5906D

AY : 2021-22


Ack. No. : 156269790100222

DIN : CPC/2122/A6/290555290

Notes:

1. This intimation may be treated as a notice of demand u/s 156 of the Income Tax Act, 1961. Accordingly, you are requested to pay the entire demand within 30 days of receipt of this intimation.
2. You are requested to pay the tax demand as per this intimation. Link for payment has been provided in this intimation, which may be made use of. Pre-filled challan is also enclosed for use, if you choose to pay physically through any authorised bank branch.
3. If you consider that any part of this intimation requires to be rectified, you may request for a rectification u/s 154 of the Income Tax Act 1961.
4. Interest u/s 220(2) is liable to be computed till the date of payment/adjustment of the demand.
5. Any payment with respect to outstanding demand should be paid using minor head code '400' only.

To file a Rectification Request



Intimation u/s 143(1)



आयकर केन्द्र

CENTRALIZED PROCESSING CENTER
INCOME TAX DEPARTMENT

Name : MODI HOUSING PRIVATE LIMITED

PAN : AACMS906D

AY : 2021-22

Ack. No. : 156269790100222

DIN : CPC/2122/A6/290555290

ANNEXURE MAT - Computation of Minimum Alternate Tax payable under section 115JB

Sl.No.	Particulars	As provided by Taxpayer	Amount in ₹ As Computed u/s 143(1)
1	Whether the Profit and Loss Account is prepared in accordance with the provisions of Parts II of Schedule III to the Companies Act, 2013	2	2
2	If 1 is no, whether profit and loss account is prepared in accordance with the provisions of the Act governing such company	2	2
3	Whether, for the Profit and Loss Account referred to in item 1 above, the same accounting policies, accounting standards and same method and rates for calculating depreciation have been followed as have been adopted for preparing accounts laid before the company at its annual general body meeting?	2	2
4	Profit after tax as shown in the Profit and Loss Account (enter item 56 of Part A-P&L) / (enter item 56 of Part A-P&L Ind AS)	0	7,82,30,959
5	Additions (if debited in profit and loss account)		
	(a) Income-tax paid or payable or its provision including the amount of deferred tax and the provision there of	0	0
	(b) Reserve (except reserve under section 33AC)	0	0
	(c) Provisions for unascertained liability	0	0
	(d) Provisions for losses of subsidiary companies	0	0
	(e) Dividend paid or proposed	0	0
	(f) Expenditure related to exempt income under sections 10, 11 or 12 [exempt income excludes income exempt under section 10(38)]	0	0
	(g) Expenditure related to share in income of AOP/ BOI on which no income-tax is payable as per section 86	0	0
	(h) Expenditure in case of foreign company referred to in clause (fb) of explanation 1 to section 115JB	0	0
	(i) Notional loss on transfer of certain capital assets or units referred to in clause (fc) of explanation 1 to section 115JB	0	0
	(j) Expenditure relating to income by way of royalty in respect of patent chargeable to tax u/s 115BBF	0	0
	(k) Depreciation attributable to revaluation of assets	0	0
	(l) Gain on transfer of units referred to in clause (k) of explanation 1 to section 115JB	0	0
	(m) Others (including residual unadjusted items and provision for diminution in the value of any asset)	0	0
	(n) Total additions (5a+5b+5c+5d+5e+5f+5g+5h+5i+5j+5k+5l+5m)	0	0
6	Deductions		
	(a) Amount withdrawn from reserve or provisions if credited to Profit and Loss account	0	0
	(b) Income exempt under sections 10, 11 or 12 [exempt income excludes income exempt under section 10(38)]	0	0
	(c) Amount withdrawn from revaluation reserve and credited to profit and loss account to the extent it does not exceed the amount of depreciation attributable to revaluation of asset	0	0
	(d) Share in income of AOP/ BOI on which no income-tax is payable as per section 86 credited to Profit and Loss account	0	0
	(e) Income in case of foreign company referred to in clause (iid) of explanation 1 to section 115JB	0	0
	(f) Notional gain on transfer of certain capital assets or units referred to in clause (ie) of explanation 1 to section 115JB	0	0

Intimation u/s 143(1)



आयकर केन्द्र
CENTRALIZED PROCESSING CENTER
INCOME TAX DEPARTMENT

Name : MODI HOUSING PRIVATE LIMITED

PAN : AACDM5906D

AY : 2021-22

Ack. No. : 156269790100222

DIN : CPC/2122/A6/290555290

ANNEXURE MAT - Computation of Minimum Alternate Tax payable under section 115JB

Sl.No.	Particulars	As provided by Taxpayer	Amount in ₹ As Computed u/s 143(1)
(g)	Loss on transfer of units referred to in clause (iif) of explanation 1 to section 115JB	0	0
(h)	Income by way of royalty referred to in clause (iig) of explanation 1 to section 115JB	0	0
(i)	Loss brought forward or unabsorbed depreciation whichever is less or both as may be applicable	0	0
(j)	Profit of sick industrial company till net worth is equal to or exceeds accumulated losses	0	0
(k)	Others (including residual unadjusted items and the amount of deferred tax credited to P&L A/c)	0	0
(l)	Total deductions (6a+6b+6c+6d+6e+6f+6g+6h+6i+6j+6k)	0	0
7	Book profit under section 115JB (4+ 5n - 6l)	0	7,82,30,959
8	Whether the financial statements of the company are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards (Ind-AS) specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. If yes, furnish the details below:-	N	N
A	Additions to book profit under sub-sections (2A) to (2C) of section 115JB		
(a)	Amounts credited to other comprehensive income in statement of profit & loss under the head "items that will not be reclassified to profit & loss"	0	0
(b)	Amounts debited to the statement of profit & loss on distribution of non-cash assets to shareholders in a demerger	0	0
(c)	One fifth of the transition amount as referred to in section 115JB (2C) (if applicable)	0	0
(d)	Others (including residual adjustment)	0	0
(e)	Total additions (8a + 8b + 8c + 8d)	0	0
B	Deductions from book profit under sub-sections (2A) to (2C) of section 115JB		
(f)	Amounts debited to other comprehensive income in statement of profit & loss under the head "items that will not be reclassified to profit & loss"	0	0
(g)	Amounts credited to the statement of profit & loss on distribution of non-cash assets to shareholders in a demerger	0	0
(h)	One fifth of the transition amount as referred to in section 115JB (2C) (if applicable)	0	0
(i)	Others (including residual adjustment)	0	0
(j)	Total deductions (8f + 8g + 8h + 8i)	0	0
9	Deemed total income under section 115JB (7 + 8e - 8j)	0	7,82,30,959
10	Tax payable under section 115JB	0	1,17,34,644

Name : MODI HOUSING PRIVATE LIMITED
Address : 5-4-187/3 AND 4,3RD FLOOR SOHAM MANSION, M.G.ROAD RANIGUNJ, SECUNDERABAD Telangana 500003 INDIA
Ph : 91-9121282860

PAN : AACDM5906D AY : 2021-22 Ack. No. : 156269790100222 DIN : CPC/2122/A6/290555290

All the mandatory details corresponding to the demand required for e-payment will be prefilled (for e.g.: PAN, AY, amount, etc.) for making e-payment on the Department's Tax information network website managed by NSDL e-Gov.

CHALLAN NO./ITNS 280

[Click Here to E-PAY TAX](#)

Tax Applicable (Tick One)*

☒ Income -Tax on companies (0020) (Corporation tax) ☐ Income -Tax (0021) (other than companies)

Type of Payment (Tick One)

DRN 2022202137133975171C

☐ Advance Tax (100) ☐ Surtax (102)
☐ Self Assessment Tax (300) ☐ Tax on Distributed Profits of Domestic Companies (106)
☒ Tax on Regular Assessment (400) ☐ Tax on Distributed Income to Unit Holders (107)

Details of Payments

Amount (In Rs.Only)

For use in receiving bank

Income Tax

69,97,780

Debit to A/c / Cheque credited on

Surcharge

DD MMM YYYY

Education Cess

Interest

Space for bank seal

Penalty

Others

Total

69,97,780

Crores	Lakhs	Thousands	Hundreds	Tens	Units
0	69	97	7	8	0

Paid In Cash / Debit to A/c / Cheque No

Dated

Drawn on

(Name of the Bank and Branch)

Date:

Signature of the person making the payment

Taxpayers' Counterfoil
(To be filled up by the taxpayer)

DRN 2022202137133975171C

Space for bank seal

PAN

AACDM5906D

Received from

MODI HOUSING PRIVATE LIMITED
(Name)

Cash/ Debit to A/c / Cheque No.

For Rs. 69,97,780

Rs. (In Words)

Sixty Nine Lakh Ninety Seven Thousand Seven Hundred and Eighty

Drawn on

(Name of the Bank and Branch)

On account of Income Tax on

Companies / ~~Other than Companies~~ Tax
(Strike out whichever is not applicable)

Type of Payment Tax on Regular Assessment (400) (To be filled up by the person making the payment)
for the Assessment Year 2021-22

